

जनपद हरिद्वार द्वारा माह जून 2017 में किये गये सराहनीय कार्य

1-

Police Station Name	थाना ज्वालापुरी
Image	NA
Date Of good work	15-6-17
Brief	दिनांक 15-6-17 को उप निरीक्षक नरेन्द्र तोमर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के दौरान चैकिंग बाल्मिकी बस्ती चैक तिराहा के पास से अभियुक्त सहलून पुत्र सत्तार नि० मौ० कस्सावान थाना ज्वालापुर एंव अभियुक्त आवेद पुत्र मेहदी नि० वावर कालोनी ज्वालापुर को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार कर जामा तलाशी पर अभियुक्त सहलून से 24 इन्जैक्शन, 32 कैन्प्सूल, 10 सीरिज, 80 ग्राम नाजायज चरस, आवेद से 17 इन्जैक्शन, 34 कैप्सूल 10 सीरिज, 70 ग्राम नाजायज बरामद चरस हुआ। इस सम्बन्ध में थाना ज्वालापुर पर मु०अ०सं० 310/17 एव 311/17 पंजीकृत होकर अभियुक्तगण को जेल भेजा गया।

2-

Police Station Name	कोतवाली मंगलौर
Image	NA
Date Of good work	21.06.17
Brief	दिनांक 21.06.17 को उ०नि० चित्रगुप्त, कान्स० विकास व कान्स० पंकज द्वारा कुशल सुरागरसी पतारसी करते हुये अभियुक्त चुन्नीलाल पुत्र पल्लूराम निवासी ग्राम बसवाखेड़ी, कोतवाली मंगलौर हरिद्वार केकब्जे से चोरी की मोटर साईकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बेचने के लिये जाते हुये पकड़ा गया। अभियुक्त को मय मोटर साईकिल के गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 167/17 धारा 413.420 भादवि पंजीकृत किया गया।

3-

Police Station Name	कोतवाली लक्सर
Image	NA
Date Of good work	27-06-2017
Brief	दिनांक 27-06-2017 को वादी श्री रवि उर्फ दविवेश पुत्र कुशलपाल निवासी मौहम्मदपुर कुन्हारी, कोतवाली लक्सर, हरिद्वार, द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिक पुत्री बुलबुल उर्फ कटारी उम्र 07 वर्ष के साथ बलात्कार करना व ईंट से मारकर उसकी हत्या करने के सम्बन्ध में कोतवाली लक्सर पर मु०अ०सं० 249/2017 धारा 302,376(2) झ भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान श्री नवीन चन्द्र सेमवाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर, व०उ०नि० श्री राकेश कुमार, कान्स० 1104 कपिल, कान्स० 416 नरेश, कान्स० 564 बलवीर, कान्स० 876 दिनेश गौड द्वारा कुशल सुरागरसी पतारसी करते हुये प्रकाश में आये अभियुक्त गुलसन्नवर पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी, कोतवाली लक्सर हरिद्वार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

4-

Police Station Name	NA
Image	NA
Date Of good work	27-06-2017
Brief	दिनांक 27-06-2017 को थानाध्यक्ष श्री एन०के० बचकोटी, उ०नि० प्रशि० श्री जगमोहन, कान्स० 557 शूरवीर, कान्स० 371 मनोज, कान्स० 1062 दिनेश द्वारा मोहन रौ नदी में डम्पर में नदी के तेज बहाव में फंसे 02 व्यक्तियों को कड़ी मेहनत व जान जोखिम में डालते हुये दोनों व्यक्तियों को सकुशल बचाया गया, जिनकी स्थानीय जनता द्वारा भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी।

5-

Police Station Name	एण्टी ह्यूमन टैफिकिंग यूनिट हरिद्वार
Image	NA
Date Of good work	13.06.17
Brief	दिनांक 13.06.17 को साधना त्यागी प्रभारी निरीक्षक एण्टी ह्यूमन टैफिकिंग यूनिट हरिद्वार को सूचना मिली कि गली नं० 06 प्रेमनगर न्यू कचहरी रूडकी के एक मकान में हेमा रावल नाम की महिला लड़कियों को लाकर सैक्स रैकेट का धंधा कराती है। इस सूचना पर उनके द्वारा हमराही पुलिस बल को लेकर उक्त मकान में दबिश दी गयी तो दो पुरुष बाँबी पुत्र कालू निवासी सासीपुर मंगलौर हरिद्वार व यशपाल पुत्र श्रीधर सिंह निवासी थीथकी थाना मंगलौर हरिद्वार व दो महिलाएं हिना शर्मा पत्नी सुरेशपाल निवासी मौ० जाफरनबाज निकट आर्य कन्या इण्टर कॉलेज थाना कुतुबशेर सहारनपुर व सोनम अरोड़ा पुत्री राम निवासी प्रेमनगर रामनगर रूडकी आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। पृच्छाछ पर दोनों पुरुषों द्वारा दोनों महिलाओं को शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए 1500/-रुपये प्रति देना व इस कार्य हेतु हेमा रावल द्वारा लाना बताया गया। उक्त मकान में एक लड़की ज्योति उर्फ निशा पत्नि गुल्लू निवासी ऊषा बिहार थाना चिलकाना सहारनपुर भी मौजूद मिली जिसके द्वारा स्वयं को हेमा रावल द्वारा डरा धमकाकर वेश्यावृत्ति करवाने हेतु वहां लाना बताया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना कोतवाली गंगनहर पर मु०अ०सं० 214/17 धारा 370(1) 342/506/120बी भादवि व 4/5/6 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।